



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 1975/अग्रहायण 7, 1897

No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 1975/AGRAHAYANA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th November 1975

SUBJECT :—Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1975—March, 1976
(Amendment).

No. 124-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC (PN)/75 dated the 7th April, 1975.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1	2	3
93	A.66.12	The existing item (b) may be amended to read as under :—
	Col. 4	“(b) Extra deep-drawing quality Steel Sheet/Strips/Coils (aluminium killed)”.

1	2	3
122	B. GROUP	The following entries may be made after the existing entry B-4-16:—
1	2	3
1	2	3
B.4.17	Bentonite Sodium base.	14% Sack Craft paper.
		(1) Exports of this item will qualify for import replenishment licence <i>only</i> when packed in multiply sack craft bags.
		(2) In addition to the prescribed documents, production of certificate from the Export Inspection Agency indicating that exports of Bentonite have been made in packs of multiply sack craft bags, will be necessary.

1	2	3
136	B.51.1	The following item may be added in Col. 4 :— “(d) Industrial Felts.”
	Col. 4 & 5	The following may be added in Column 5 :— “(1) Import of Industrial Felts shall be permitted against export of AC Pressure Pipes.”
215	S. 6.1	The existing description of the export product may be amended to read as under :—
	Col. 2	“Imitation Jewellery/Costume Jewellery studded or strung with synthetic/imitation stones/plastic beads, wooden beads, glass beads, false pearls, glass chattons etc.”
215	S. 6.2	The existing entry may be amended to read as under :—
	Cl. 2	“Imitation Jewellery/Costume Jewellery Plain (other than specified under S. 6.1)”. ”
215	S. 6.2	The existing item (a) may be amended to read as under :—
	Col. 4	“Metal fittings viz. invisible clasps, hinges, hasps, screws and nails.”
		The item “(b) Glass Chattons and beads (50%)” may be deleted.

3. The following item may be deemed to have been inserted alphabetically in Section IV—Classification of Export Products of the Red Book (Vol. II) for 1975-76 :—

A. ENGINEERING GOODS :

Pocket Knives (folding).....A.111.1

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1975

विषय :—अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन)

सं० 124 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 21 आई टी सी (पी एन) / 75 दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत अप्रैल, 1975—मार्च, 1976

अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 2) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
93 ए० 66.12 कालम. 4		वर्तमान मद (बी) को निम्नलिखित अनु- सार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— “(बी) एकसदृश डीप-ड्राविंग क्वालिटी स्टील शीट स्ट्रूप्स/कायल्स (एल्युमिनियम किल्ड)”
122 बी० ग्रुप -----		वर्तमान प्रविष्टि बी० 4.16 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएं :—

1	2	3	4	5
बी० 4.17	बेन्टोनाइट मोडियम बेस	14%	सेक क्राफ्ट पेपर	(1) आयात प्रतिपूर्ति साइसेस के लिए इस मद के निर्यात केवल तब प्राप्त होंगे जब यह प्रवर्धित सेक क्राफ्ट थैलों में पैक किया हो। (2) निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त यह निर्दिष्ट करते हुए कि बेन्टोनाइट के निर्यात प्रवर्धित सेक क्राफ्ट थैलों के पैकों में किए गए हैं, निर्यात निरोधन अभिकरण से उत्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1	2	3
136 बी० 51.1 ----- कालम 4 तथा 5		निम्नलिखित मद कालम 4 में जोड़ी जाएंगी :— “(डी) औद्योगिक नमदे।” कालम 5 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “(1) औद्योगिक नमदों के आयात की अनुमति ए सी प्रेसर पाइप्स के निर्यात के प्रति दी जाएगी।”

1	2	3
215	एस० 6.1 कालम 2	निर्यात उत्पाद का वर्तमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— “संश्लिष्ट/नकली रत्नों/प्लास्टिक मनकों, काष्ठ मनकों, काच मनकों, झूठे मोतियों और काच चैटन आदि से जटित या गुंथे हुए नकली आभूषण/प्रथागत आभूषण।”
215	एस० 6.2 कालम 2	वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाए :— “नकली आभूषण/प्रथागत, आभूषण अनलकृत (एस० 6.1 के अन्तर्गत विशिष्टिकृत से भिन्न)।”
215	एस० 6.2 कालम 1	वर्तमान मद (ए) निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाए :— “धातु फिटिंग जैसे अंतरित कब्जे, चूल, कुंडे सांकल, पुर्जे और कोलें।” मद “(बी) काच चैटन और मनके (50%)” हटा दी जाए।

3. निम्नलिखित मद रेडबुक (घा० 2) 1975-76 के निर्यात उत्पादों के वर्गीकरण—खंड- 4 में वर्णक्रमानुसार निविष्ट की गई समझी जाए :—

ए० अभियांत्रिक माल

पाकेट चाकू (फोल्डिंग) ए० 111.1

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।